



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 आश्विन 1932 (श0)
(सं0 पटना 702) पटना, बुधवार, 13 अक्टूबर 2010

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

5 अक्टूबर 2010

सं0-बी1-3-173/2010-28—बिहार विधान-सभा आम निर्वाचन, 2010 एवं 27-बांका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उप-निर्वाचन, 2010 के एक्जिट पोल से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 576/ई एक्स आई टी/2010/एस.डी.आर दिनांक 30 सितम्बर 2010 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

आर0 के0 प्रसाद,

उप-मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,

बिहार-सह-सरकार के उप-सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 सितम्बर, 2010

सं० 576/ई एक्स आई टी/2010/एस.डी.आर.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-126क की उप-धारा(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, आयोग एतद्वारा बिहार राज्य में दिनांक 21 अक्टूबर 2010, अर्थात् मतदान के पहले दिन, पूर्वाह्न 7.00 बजे से दिनांक 20 नवम्बर 2010, अर्थात् मतदान के अंतिम दिन, अपराह्न 05.30 बजे तक के समय को ऐसे समय के रूप में अधिसूचित करता है, जिसके दौरान किसी निर्गम मतानुमान का संचालन करना या इसका प्रचार करना जो कुछ भी हो, बिहार राज्य विधान-सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2010 तथा 27-बांका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के चालू उप-निर्वाचन के संबंध में किसी निर्गम मतानुमान के परिणाम पर रोक लगा दी जाएगी।

यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के अधीन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी मत सर्वेक्षण या किसी भी अन्य मत सर्वेक्षण के परिणाम सहित, निर्वाचन से संबंधित किसी भी सामग्री का प्रदर्शन करने पर प्रत्येक चरण के मतदान के समाप्त होने के लिए निर्धारित किए गए समय से 48 घण्टों की अवधि के लिए रोक लगा दी जाएगी।

आदेश से,
के.एफ.बिल्फ्रेड,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi 110001 dated 30th September, 2010

No. 576/EXIT/2010/SDR—In exercise of the powers under sub-section(1) of Section 126A of the Representation of the People Act, 1951, and having regard to the provision of sub-section(2) of the said Section, the Commission hereby notifies the period from 7 A.M. on 21st October 2010, i.e., the first day of poll, to 5.30 P.M. on 20th November 2010, i.e., the last day of the poll in the State of Bihar, as the period during which conducting any exit poll or disseminating in any manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the current General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2010 and bye-election to the House of the People from 27-Banka Parliamentary Constituency would be prohibited.

It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the Representation of the People Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours of fixed for conclusion of poll in every phase.

By order,
K.F.WILFRED,
Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 702-571+300-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>